

‘उपादान संदाय’ : उपहार नहीं अपत्ति एक संपत्ति

संदर्भ

हाल ही में नियोक्ता के दायित्वों का उल्लेख करते सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि उपादान (Gratuity) का भुगतान कर्मचारी को लाभ पहुँचाने के लिये अनावश्यक रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि यह नियोक्ता (employer) का दायित्व है। वदिति हो कि उपादान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार 10 अथवा 10 से अधिक कर्मचारी युक्त प्रत्येक संस्था उपादान भुगतान के लिये उत्तरदायी है।

परमुख बदि

- इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए और सर्वोच्च न्यायालय के नरिणों के प्रयोजन से वधियिका ने उन लोगों की एक संपूर्ण सूची तैयार की, जिन्हें इस कल्याणकारी कानून से लाभ पहुँच सकता था। इस सूची में फैक्टरी के कर्मचारियों और खदानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों और दुकानों में काम करने वाले कामगारों को शामिल किया गया था।
- इस प्रकार वर्ष 1972 के अधिनियम को उद्योगों, फैक्ट्रियों और संस्थाओं के ‘वेतन-अर्जक लोगों’ के लिये एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून के रूप में देखा गया।
- उपादान कानून सेवानवित्त होने के पश्चात् कामगारों (चाहे वह सेवानवित्तिके नयिमों, शारीरिक विकलांगता अथवा शरीर के किसी भाग में चोट पहुँचने के कारण सेवानवित्त हुआ है) को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है।
- ‘उपादान संदाय’ सेवानवित्त होने के पश्चात् होने वाली समस्याओं और असुवधियों के लिये दी जाने वाली वतित्तीय सहायता (financial assistance) है।
- दरअसल, सरकार ने वेतन वृद्धि और मुद्रास्फीति को संज्ञान में लेते हुए इस कानून में आवधिक उन्नयन (समय-समय पर बदलाव) की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की है। इस अधिनियम में नवीनतम बदलाव सतिम्बर में किया गया था, जब केंद्र सरकार ने संसद में उपादान संदाय (संशोधन) वधियक, 2017 को मंजूरी दी थी। इस वधियक में कर-मुक्त उपादान की वर्तमान अधिकतम सीमा को दोगुना करके 20 लाख रुपए करने प्रस्ताव रखा गया था।
- वर्ष 2017 के संशोधन वधियक में नजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकार के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त संगठनों (जो केन्द्रीय सविलि सेवा(पेंशन) के नयिमों के अंतर्गत नहीं आते हैं) और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये उपादान की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

नषिकर्ष

वर्तमान में उपादान राशिकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है, जसिकी शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। इससे पहले उपादान की अधिकतम राशि 3.5 लाख रुपए थी। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये भी उपादान की अधिकतम राशि 10 लाख ही थी, परन्तु सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह राशि दोगुनी होकर 20 लाख रुपए हो गई, जसि 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था।